

श्री एल० बी० शास्त्री : जैसा अभी बतलाया गया इन कमेटियों के बनाने में यह इरादा है कि इन से ज्यादा काम लिया जा सके। फर्क पुरानी और इन कमेटियों में यह है कि पहले उन पर पार्लियामेंट के मँम्बर थे अब उन पर दूसरे लोगों को भी रिप्रिजेंटेशन दिया गया है। एक अरसे से यह मांग थी कि और लोगों को भी मौका दिया जाय, इन कमेटियों पर आने का और इसलिये और लोग भी इन में अब शामिल किये गये हैं। उम्मीद यह है कि सब के सलाह मशविरों से अब इन कमेटियों का काम पहले से ज्यादा फायदेमन्द होगा।

Shri Punnoose: May I know the members of the Southern Railway Zonal Committee?

Shri Alagesan: There are three Members of Parliament. They are Shri P. Natesan, Shri A. M. Thomas and Shri Govindarajan of the Council of States.

बाबू रामनारायण सिंह : इस कमेटी की पूरी संख्या क्या है और दूसरे दल के कितने लोग हैं और कौन कौन हैं ?

मिस्टर डिप्टी-स्पीकर : कौन सी कमेटी ?

बाबू रामनारायण सिंह : वही कमेटी, वही रेलवे कमेटी जो बनी है और जिस के बारे में बातचीत हो रही है।

श्री शाहनवाज खाँ : आनरेबिल मँम्बर का मतलब नैशनल कन्सल्टेटिव कमेटी से है तो इस के मँम्बरों की एक लम्बी फँहरिस्त है जो कि टेबुल पर रखी जायगी।

Shri V. P. Nayar: The hon. Minister in answer to an earlier supplementary question stated that all parties are represented. Is it not a fact that the three Members mentioned by him belong to the Congress Party and hence other parties are not represented?

Shri Alagesan: The full list of names will be placed on the table of

the House. The hon. Member can find for himself whether they belong to all the parties.

Shri Muniswamy: May I know on what considerations the selection of these Members was made for these Committees?

Shri Alagesan: These are nominated by the Minister.

Mr. Deputy-Speaker: It is invidious to state it on the floor of this House.

PRODUCTION OF *Gur*

*542. **Shri K. P. Sinha:** (a) Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the total quantity of *gur* produced during the year 1952-53 (State-wise)?

(b) How does it compare with that of the last year?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): (a) and (b). The final figures for *gur* production during 1952-53 are not yet available, but it is estimated to be about 15 per cent. less than that in 1951-52.

Shri K. P. Sinha: May I know how far the payment of price has effected *gur* production?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Kidwai): One has nothing to do with the other.

लाला अब्दुल्ला राम: क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि गांव में बढ़ती हुई बेकारी का ख्याल करते हुए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है कि ज्यादा लोग गुड़ बनाने के काम में लग सकें ?

श्री किदवाई : जब ज्यादा लोग गन्ना बोना शुरू करेंगे तो जाहिर है कि ज्यादा गुड़ बनावेंगे।

लाला अब्दुल्ला राम : मेरी गुंजारिश यह है कि क्या गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है कि जो लोग गुड़ बना रहे हैं उन को आसानियाँ मिलें, जैसे पैन सस्ते दामों में मिल

बके और सामान सस्ते दामों में मिल सके, क्या गवर्नमेंट इस तरह के कोई कदम उठा रही हैं कि जिससे उन को ज्यादा आसानी हो ?

श्री किदवाई : आप के सवाल का जो मतलब है वह में स्टेट्स गवर्नमेंट को भेज दूंगा ताकि वे इस पर तबज्जह दे सकें।

लाला अचिन्त राम : सवाल भेजने के अलावा आप क्या और भी कदम उठा सकते हैं ?

Shri K. P. Sinha: May I know how the *gur* prices of this year compare with those of last year?

Shri M. V. Krishnappa: I shall give the comparative figures as under:—

In January 1952 the price of *gur* was Rs. 13/- per maund.

In January 1953 the price of *gur* was Rs. 13/4/- per maund.

In February 1952 the price of *gur* was Rs. 10/12/- per maund.

In February 1953 the price of *gur* was Rs. 13/9/- per maund.

In June 1952 the price of *gur* was Rs. 10/- per maund.

In June 1953 the price of *gur* was Rs. 12/ per maund.

In July 1952 the price of *gur* was Rs. 12/- per maund.

In July 1953 the price of *gur* was Rs. 21/2/- per maund.

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि इस वर्ष गुड़ की कीमतों में बहुत घटा बढ़ी हुई है और यह एक बजह है जिस के सबब से गुड़ का उद्योग इस देश में जितना बढ़ना चाहिये, उतना नहीं बढ़ रहा है ?

श्री किदवाई : मुमकिन है कि आनरेबिल मैन्यर की राय सही हो।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि अभी जैसा कि माननीय मंत्रीजी

ने बतलाया कि कुछ दिनों के पहले गुड़ की कीमत १३ रुपये थी और अब वह २० रुपये है और इस घटा बढ़ी की वजह से इस उद्योग की तरक्की नहीं हो रही है ?

श्री किदवाई : बीस रुपये तो कुछ जगहों पर है, जैसे कि जबलपुर में, लेकिन कोल्हापुर में ३२ रुपये और २८ रुपये हैं। तो इस की वजह यह है कि गुड़ इस साल १५ फी सदी कम पैदा हुआ और जब पैदावार कम हो और खरीदार ज्यादा हों तो दाम बढ़ जाते हैं।

Shri Shivananjappa: May I know the total quantity that has been diverted for the manufacture of jaggery for 1952?

Shri Kidwai: For 1952 final figures have not yet been received.

Shri Nanadas: What are the facilities provided to the *gur* producers of the States?

Shri Kidwai: If the States want any facilities, we will try to provide them.

Sardar Hukam Singh: May I know whether there are any causes for the fall in production?

Shri Kidwai: The most productive area is the Meerut area and this year the crop was diseased and, therefore, the *gur* recovery and sugar recovery were reduced.

Shri Heda: In view of the fact that the *gur* production depends upon the fixation of sugarcane price, which is done by the Central Government, do Government consider this aspect of the matter and decide the Government policy?

Shri Kidwai: What the hon. Member has said before he has himself contradicted now. If the cane price for the factory is fixed low, there should be more production of *gur*. Because the *gur* prices were high this year for the first time after many years, again cane price was fixed at Rs. 1/5/-. Therefore, *gur* production

should be increased but really it has decreased.

Shri Punnose: May I know whether in Travancore-Cochin the low fixation of price has affected the area of cultivation as well as yield per acre?

Shri Kidwai: That may be true but I have not found that the cane cultivation this year has decreased. It may have increased. I have said again and again that the comparative prices of other alternative products always affect the production. The other day I said that when the price of cane was fixed at Rs. 2/- a maund, next year the cane production decreased because prices of wheat and other commodities were much higher. Therefore, it is not the price that matters but it is the comparative price that matters.

सेठ गोबिन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि फलां फलां जगह पर गुड़ की कीमत इतनी है और फलां जगह इतनी है और उसके दामों में घटी बढ़ी बहुत हुई है, क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच रही है कि कीमतों की इतनी ज्यादा घटी बढ़ी को रोका जा सके और एक जगह से दूसरी जगह गुड़ की कीमतों में इतना ज्यादा फरक न रहे ?

श्री किशबई : आजकल गुड़ के इधर से उधर जाने में कोई रोक नहीं है, लिहाजा जहां पर जैसी सप्लाई होती है और जितनी ज्यादा उसकी डिमांड होती है, उनी हिसाब से वहां पर गुड़ का दाम होता है, और अगर हम वहां पर कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल कीमत का करना भी चाहें जैसे अगर हम चाहें कि कोल्हापुर में १२ रुपये मन गुड़ मिल जाय जब कि वहां बाजार में २८ रुपये उसके दाम हैं तो सिवाय इसके कि ब्लैक मार्केटियर्स को कुछ और ज्यादा फायदा कर दें और दूसरा कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है ।

Shri K. P. Sinha: May know if it is a fact that because of low production of *gur* there is disappearance of sugar from the present market?

Shri Kidwai: Sugar has not disappeared from the market, but on account of the high price of *gur*, there has been more consumption of sugar this year than last year. It was first thought that perhaps sugar may have been hoarded, but enquiries made through banks reveal that there is not more investment on sugar this year than last year. Therefore, we have reasons to presume that the consumption has increased almost 50 per cent. this year.

SURVEY OF OIL SEEDS

*543. **Shri Heda:** (a) Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state whether the survey of minor oilseeds has been completed?

(b) If so, what are its main recommendations?

(c) If not, when is it expected to be completed?

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa):
(a) Not yet, except in Madras State.

(b) The main recommendations in the case of Madras are:—

(i) that to stimulate production of oil, more industrial uses should be found for neem oil for *pungam*, *mohwa* and for soap making;

(ii) that research work should be promoted to find new uses for *pungam mohwa*, and *pinnai* oils; and

(iii) that possibilities of utilisation of tobacco seed oil in industries should be studied and that export of tobacco seed cake should be permitted.

(c) The surveys undertaken in other States are expected to be completed within a year.